


SSC Practice set-14

1. If 20 men working 8 hours per day can complete a piece of work in 21 days. How many hours per day must 48 men work to complete the same job in 7 days?
 यदि 20 व्यक्ति 8 घंटे प्रति दिन काम करके किसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताए 48 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करें कि वह काम 7 दिन में पूरा हो जाए?
 (a) 12 (b) 20 (c) 10 (d) 15
2. ABCD is a cyclic quadrilateral. $DBA = 50^\circ$ and $ADB = 33^\circ$. Then the measure of BCD is
 ABCD एक चक्रीय त्रिभुज है। यदि कोण $DBA = 50^\circ$ और कोण $ADB = 33^\circ$ हो तो BCD का मान बताइए?
 (a) 83° (b) 80° (c) 75° (d) 60°
3. A shop keeper earns a profit of 12 % on selling a book at 10 % discount on the printed price. The ratio of cost price to the printed price of the book is
 एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10 % की छूट देने के बाद 12 % लाभ आर्जित करता है। पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच अनुपात बताइए?
 (a) 45 : 56 (b) 50 : 61 (c) 99 : 125
 (d) None of these
4. The number of pupils of a class is 55. The ratio of the number of the male pupils to the number of female pupils is 5 : 6. The number of female pupils is
 किसी कक्षा में छात्रों की संख्या 55 है। छात्र और छात्राओं के बीच 5:6 का अनुपात है। छात्राओं की संख्या बताइए?
 (a) 11 (b) 25 (c) 30 (d) 35
5. 5% more is gained by selling a watch for Rs. 350 than by selling it for Rs. 340. The cost price of the watch is
 किसी घड़ी को रु 340 के बजाय यदि रु 350 में बेचा जाए तो 5% अतिरिक्त लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य बताइए?
 (a) Rs 110 (b) Rs. 140 (c) Rs. 200 (d) Rs. 250
6. If 60 % of the students in a school are boys and number of girls is 812, how many boys are there in the school?
 यदि किसी विद्यालय में 60 % विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं?
 (a) 1128 (b) 1218 (c) 1821 (d) 1281
7. It takes eight hours for a 600 km journey, if 120 km is done by train and the rest by car. It takes 20 minutes more, if 200 km is done by train and

- the rest by car. The ratio of the speed of the train to that of the car is :
- 600 कि.मी लम्बी यात्रा में से यदि 120 किमी की यात्रा ट्रेन से की जाए और शेष यात्रा कार से, तो यात्रा 8 घण्टे में पूरी होती है। और यदि वही यात्रा ट्रेन से 200 किमी और शेष यात्रा कार से तय की जाए तो 20 मिनट का समय अधिक लगता है। ट्रेन और कार की चाल का अनुपात बताइए?
- (a) 3 : 5 (b) 3 : 4 (c) 4 : 3 (d) 4 : 5
 8. If $a > 1$, then the value of $\frac{a^2 - a - 1}{a^2 + a - 1}$ is (a) 0
 यदि $a > 1$ हो तो $\frac{a^2 - a - 1}{a^2 + a - 1}$ का मान ज्ञात कीजिए ?
 (a) 0 (b) 1 (c) 0 (d) 2
 9. If $m > n > 1$, then the value of $m^3 - n^3 - 3mn$ is equal to
 यदि $m > n > 1$ हो, तो $m^3 - n^3 - 3mn$ का मान किसके बराबर होगा?
 (a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3
 10. The maximum number of common tangents that can be drawn to two circles is
 दो असंयुक्त वृत्तों से अधिकतम संख्या में कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खीची जा सकती है?
 (a) 1 (b) 2 (c) 4
 (d) Infinitely many
 11. If figure, $DE \parallel BC$. If $DE = 3\text{ cm}$, $BC = 6\text{ cm}$ and area of $ADE = 15\text{ sq cm}$, then the area of ABC is
 चित्र में, $DE \parallel BC$ यदि $DE = 3\text{ cm}$, $BC = 6\text{ cm}$ और $ADE = 15\text{ sq cm}$ है। तो ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए?

 (a) 75 sq cm (b) 45 sq cm
 (c) 30 sq cm (d) 60 sq cm
 12. If $\cos^4 \theta - \sin^4 \theta = \frac{1}{3}$, then the value of $\tan^2 \theta$ is

- यदि $\cos^4 \sin^4 \frac{1}{3}$ हो, तो \tan^2 का मान बताइए?
- (a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{3}$ (c) $\frac{1}{4}$ (d) $\frac{1}{5}$
13. If a perfect square, not divisible by 6, be divided by 6, the remainder will be
यदि कोई पूर्ण वर्ग जो 6 से विभाज्य न हो और उसे 6 से विभक्त कर दिया जाए तो शेषफल क्या होगा ?
(a) 1,3 or 5 (b) 1,2, or 5 (c) 1,3 or 5 (d) 1, 2 or 4
14. A batsman in his 12th innings makes a score of 120, and thereby increases his average by 5. The average score after 12th innings is
एक बल्लेबाज की 12वीं पारी का स्कोर 120 रन है और इस तरह से उसके औसत में 5 रन की वृद्धि होती है। बताएं कि 12वीं पारी के बाद उसका औसतन स्कोर क्या है?
(a) 60 (b) 55 (c) 65 (d) 70
15. The value of $\sqrt{\sqrt{3} \sqrt{3} 8\sqrt{7} 4\sqrt{3}}$ is
 $\sqrt{\sqrt{3} \sqrt{3} 8\sqrt{7} 4\sqrt{3}}$ का मान है
(a) 2 (b) 4 (c) 2 (d) 2
16. If $x^4 - \frac{1}{x^4} = 119$, then the value of $x - \frac{1}{x}$ is
यदि $x^4 - \frac{1}{x^4} = 119$, हो तो $x - \frac{1}{x}$ का मान ज्ञात कीजिए ?
(a) 6 (b) 12 (c) 11 (d) 3
17. The side BC of the ABC is extended to the point D. If $ACD = 112^\circ$ and $B = \frac{3}{4} A$, then the value of B is
यदि किसी ABC की भुजा BC को बिन्दु D तक बढ़ा दिया जाए और अगर उसका $ACD = 112^\circ$ तथा $B = \frac{3}{4} A$ हो तो B का मान बताइए ?
(a) 64° (b) 48° (c) 46° (d) 50°
18. ABC is a right angled triangle, the radius of its circumcircle is 3 cm and the length of its altitude drawn from the opposite vertex to the hypotenuse is 2 cm. Then the area of the triangle is
ABC एक समकोण त्रिभुज है, उसके परिवृत्त की त्रिज्या 3 सेमी है और विपरीत शिरोबिन्दु से कर्ण की ओर खींचे गए शीर्ष लम्ब की लम्बाई 2 सेमी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा?
(a) 12 sq cm (b) 3 sq cm
(c) 6 sq cm (d) 5 sq cm
19. The height of a tower is $50\sqrt{3} m$. The angle of elevation of a tower from a distance 50 m from its feet is
किसी मीनार की ऊंचाई $50\sqrt{3} m$ मीटर है। मीनार के आधार से 50 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण क्या होगा?
(a) 30° (b) 45° (c) 60° (d) 90°

20. The amount of Rs. 10,000 after 2 years, compounded annually with the rate of interest being 10% per annum during the first year and 12% per annum during the second year, would be (in rupees)
वार्षिक संयोजित किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर, जिसमें पहले वर्ष की दर 10% हो तो दूसरे वर्ष की ब्याज दर 12% वर्ष हो, तो रु 10000 की राशि 2 वर्ष के पश्चात (रुपये में) क्या होगी?
(a) 11,320 (b) 12,000 (c) 12,320 (d) 12,500
21. The value of $\tan 80^\circ \tan 10^\circ \sin^2 70^\circ \sin 20^\circ$ is
 $\tan 80^\circ \tan 10^\circ \sin^2 70^\circ \sin 20^\circ$ का मान बताइए?
(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
22. The bar graph given below shows the per acre yield (in kg) of different countries. Study the graph carefully and answer the questions
नीचे दिए गए बार ग्राफ में अलग-अलग देशों की प्रति एकड़ उपज (कि.ग्रा में) दर्शायी गई है। ग्राफ को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दिजिए।
-
- | Country | Yield (kg) |
|------------|------------|
| India | 200 |
| Pakistan | 160 |
| Bangladesh | 120 |
| Sri Lanka | 132 |
| Nepal | 120 |
| Bhutan | 80 |
- The average yield of the given countries is
दिए गए देशों की औसत उपज क्या है ?
(a) $132\frac{1}{3}$ (b) $133\frac{1}{3}$
(c) $134\frac{1}{3}$ (d) $135\frac{1}{3}$
23. By how much percentage is India's per acre yield more than that of Pakistan's?
भारत की प्रति एकड़ उपज पाकिस्तान की प्रति एकड़ उपज से कितने प्रतिशत अधिक है ?
(a) 20 % (b) 25 % (c) $33\frac{1}{3}\%$ (d) 35 %
24. Srilanka's yield (approximately) is what percent of total yield of all the countries?
सब देशों की कुल मिला कर उपज में से श्रीलंका की उपज कितने प्रतिशत (लगभग) है?
(a) 17.8 % (b) 16.2 % (c) 18.2 % (d) 15.4 %
25. Writing the yields of all countries in ascending order, the difference between the sum of yields of first three countries to that of last three countries is

यदि सभी देशों की उपज को आरोही क्रम में लिखा जाए तो पहले तीन देशों की कुल उपज और अंतिम तीन देशों की कुल उपज की कुल उपज में क्या अन्तर होगा ?

- answer key

- | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. (c) | 2. (a) | 3. (a) | 4. (c) | 5. (c) | 6. (b) | 7. (b) | 8. (c) | 9. (b) | 10. (c) |
| 11. (d) | 12. (a) | 13. (c) | 14. (c) | 15. (a) | 16. (d) | 17. (b) | 18. (c) | 19. (c) | 20. (c) |
| 21. (c) | 22. (d) | 23. (b) | 24. (b) | 25. (c) | | | | | |


HINT & SOLUTIONS

1. $\frac{M_1 D_1 H_1}{w_1} \quad \frac{M_2 D_2 H_2}{w_2}$

\therefore काम एक ही है

$$\begin{array}{r} w_1 \quad w_2 \quad w \\ 20 \quad 21 \quad 8 \quad 48 \quad 7 \quad H_2 \\ \hline w \\ H_2 \end{array}$$

10 घंटे/दिन



ADB में

$$\begin{array}{l} A \quad ADB \quad ABD \quad 180^\circ \\ \quad \quad A \quad 33^\circ \quad 50^\circ \quad 180^\circ \\ \quad \quad \quad A \quad 180^\circ \quad 83^\circ \\ \quad \quad \quad A \quad 97^\circ \end{array}$$

$\therefore ABCD$ चक्रीय

$$\begin{array}{l} A \quad C \quad 180^\circ \\ 97 \quad C \quad 180^\circ \\ \quad \quad C \quad 180^\circ \quad 97 \\ C \quad BCD \quad 83^\circ \end{array}$$

3. **Mp** (अंकित मूल्य) : **Cp** (क्रय मूल्य)

$$\begin{array}{ll} 100 \quad P\% & : \quad 100 \quad D\% \quad P\% \quad \text{profit\%} \\ 100 \quad 12 & : \quad 100 \quad 10 \quad D\% \quad \text{Discount\%} \\ 112 & : \quad 90 \\ 56 & : \quad 45 \\ Cp: Mp & 45:56 \end{array}$$

4. Total छात्र = 55
Male : Female

$$\begin{array}{ll} 11 \text{ यूनिट} & 55 \\ 1 \text{ यूनिट} & 5 \\ 6 \text{ यूनिट} & 5 \quad 6 \\ & 30 \end{array}$$

5. $\frac{5\%}{20} = \frac{1}{20} \frac{Mp}{Cp}$

Sp (initial) 340
Sp (New) 350
आतिरिक्षता = 10 रुपये

$$\begin{array}{r} 1 \text{ यूनिट} \quad 10 \text{ रुपये} \\ Cp \quad 20 \quad 20 \quad 10 \\ \hline 200 \text{ रुपये} \end{array}$$

6. माना कुल students 100 यूनिट

लड़के = 60%
= 60 यूनिट
लड़कियाँ = 40 यूनिट

$$\begin{array}{r} 40 \text{ यूनिट} \quad 812 \\ 20 \text{ यूनिट} \quad 812 \\ \hline 406 \\ 60 \text{ यूनिट} \quad \text{लड़के} \quad 406 \quad 3 \\ \hline 1218 \end{array}$$

7. $\frac{600 \text{ km}}{\text{total time}}$

$$\begin{array}{l} \text{Train} \quad \text{Car} \\ 120T + 480C = 8 \text{ Hr} \quad \dots(i) \\ +80 \quad -80 \\ 200T + 400C = 8 \text{ Hr } 20 \text{ mints} \quad \dots(ii) \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 80T \quad 80c \quad 20 \text{ mints.} \quad \dots(iii) \\ 20T \quad 20c \quad 5 \text{ mints} \\ 120T \quad 120c \quad 30 \text{ mints} \quad \dots(iv) \end{array}$$

(i)-(iv)

600c 7 5 hr

कार द्वारा 600 km तय किया जाता है 7 5

speed of car $\frac{600}{7 5} = 80 \text{ km/h}$

$$\begin{array}{r} 120T \quad 480c \quad 8 \text{ hr} \\ 480 \text{ km by car} \quad \frac{480}{80} = 6 \text{ hr} \end{array}$$

120 km by Train 8 6 2 hr

Speed of train 60 km/hr

Train : car

60 km/h : 80 km/hr

3 : 4

8. $a \quad \frac{1}{a} \quad 1$


$$\begin{array}{r} \frac{a^2}{a^2} \quad \frac{a}{a} \quad \frac{1}{1} \\ \frac{a^2}{a^2} \quad \frac{a}{a} \quad \frac{1}{1} \end{array} \quad \begin{array}{r} \frac{a}{a} \quad \frac{1}{1} \quad \frac{1}{a} \\ \frac{a}{a} \quad \frac{1}{1} \quad \frac{1}{a} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \frac{a}{a} \quad \frac{1}{1} \quad \frac{1}{a} \\ \hline \frac{a}{a} \quad \frac{1}{1} \quad \frac{1}{a} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \frac{1}{1} \quad \frac{1}{1} \quad \frac{0}{2} \quad 0 \\ \hline \frac{1}{1} \quad \frac{1}{1} \quad \frac{0}{2} \quad 0 \end{array}$$

9. $m \ n \ 1$

$$\begin{array}{r} m^3 \quad n^3 \quad 3mn \quad ? \\ m^3 \quad n^3 \quad 3mn \quad m^3 \quad n^3 \quad 3mn \quad 1 \\ \quad \quad \quad \quad m^3 \quad n^3 \quad 3mn(m-n) \\ \quad \quad \quad \quad (m-m)^3 \\ \quad \quad \quad \quad (1)^3 \quad (1) \end{array}$$



Total 4 Tangents (उभयनिष्टस्पर्श रेखाये)

11.

$$\begin{array}{r} AD \quad AE \quad DE \quad 3 \quad 1 \\ AB \quad AC \quad BC \quad 6 \quad 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ADE \quad AD^2 \quad 1^2 \\ ABC \quad AB \quad 2 \end{array}$$

$$\frac{1}{4}$$

$$\begin{array}{l} ADE \quad 1 \text{ यूनिट} \quad 15 \text{ } cm^2 \\ ABC \quad 4 \text{ यूनिट} \quad 4 \quad 15 \end{array}$$

$$60 \text{ } cm^2$$

12. $\cos^4 \quad \sin^4 \quad \frac{1}{3}$

$$(\cos^2 \)^2 \quad (\sin^2 \)^2 \quad \frac{1}{3}$$

$$(\cos^2 \quad \sin^2 \)(cos^2 \quad \sin^2 \) \quad \frac{1}{3}$$

$$\begin{array}{r} (\cos^2 \quad \sin^2 \) \quad \frac{1}{3} \\ \sin^2 \quad \cos^2 \quad 1 \\ \cos 2 \quad \frac{1}{3} \\ \therefore \cos 2 \quad \cos^2 \quad \sin^2 \\ \cos 2 \quad 2\cos^2 \quad 1 \quad 1 \quad \sin^2 \\ 2\cos^2 \quad 1 \quad \frac{1}{3} \\ 2\cos^2 \quad \frac{1}{3} \quad 1 \\ 2\cos^2 \quad \frac{4}{3} \quad \dots(i) \\ 1 \quad 2\sin^2 \quad \frac{1}{3} \\ 2\sin^2 \quad \frac{1}{3} \quad \dots(ii) \\ 2\sin^2 \quad \frac{2}{3} \\ \tan^2 \quad \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \quad \frac{3}{4} \quad \frac{1}{2} \end{array}$$

13. माना,
तीन पूर्ण वर्ग जो 6 से विभाज्य नहीं हैं,

$$6) \overline{9}(1 \quad 6) \overline{16}(2 \quad 9,16,25$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \frac{3}{3} \end{array} \text{ शेषफल} \quad \begin{array}{r} 12 \\ \frac{4}{4} \end{array} \text{ शेषफल}$$

$$6) \overline{25}(1$$

$$\begin{array}{r} 24 \\ \frac{1}{1} \end{array} \text{ शेषफल}$$

शेषफल (Remainder) 1,3 or 4

14. माना 11 वीं पारी तक औसत x

$$11 \text{ पारियों में बने कुल रन} \quad 11x$$

$$11x$$

$$12 \text{वीं पारी के बाद औसत} \quad (x-5)$$

$$12 \text{वीं पारी के कुल रन} \quad 12(x-5)$$

A.T.Q

$$\begin{array}{r} 11x \quad 120 \quad 12(x-5) \\ \quad \quad \quad x \quad 60 \end{array}$$

12 वीं पारी के बाद औसत

$$\begin{array}{r} x \quad 5 \\ \quad \quad \quad 65 \text{ रन} \end{array}$$


15. $\sqrt{\sqrt{3}} \quad \sqrt{3} \quad 8\sqrt{7} \quad 4\sqrt{3}$

$$\sqrt{7-4\sqrt{3}} \quad \sqrt{7-2\sqrt{12}}$$


$$\begin{array}{r}
 & / \backslash \\
 4 & 3 \\
 \\
 \sqrt{4} & \sqrt{3} \\
 2 & \sqrt{3} \\
 8(2 & \sqrt{3}) & 16 & 8\sqrt{3} \\
 \sqrt{3} & 16 & 8\sqrt{3} \\
 \sqrt{19} & 8\sqrt{3} & \sqrt{19} & 2\sqrt{48} \\
 & & / \backslash \\
 & & 16 & 3 \\
 \\
 \sqrt{16} & \sqrt{3} \\
 4 & \sqrt{3} \\
 \sqrt{\sqrt{3}} & 4 & \sqrt{3} & \sqrt{4} & 2
 \end{array}$$

16. $x^4 - \frac{1}{x^4} = 119$


$$\begin{array}{r}
 x \quad \frac{1}{x} \quad ? \\
 x^4 \quad \frac{1}{x^4} \quad 119 \\
 x^2 \quad \frac{1}{x^2} \quad \sqrt{119 - 2} = \sqrt{121} \\
 x \quad \frac{1}{x} \quad \sqrt{11 - 2} = \sqrt{9} \\
 & & 3
 \end{array}$$



$$\begin{array}{r}
 B \quad \frac{3}{4} \quad A \\
 \frac{B}{A} \quad \frac{3}{4} \quad \frac{3x}{4x}
 \end{array}$$



$$\begin{array}{r}
 A \quad B \quad ACD \text{ (exterior angle)} \\
 7x \quad 112 \\
 x \quad 16^\circ \\
 B \quad 3x \quad 48^\circ
 \end{array}$$




समकोण में परिकेन्द्र कर्ण का mid point होता है।

$$\begin{array}{r}
 AO \quad OC \quad BO \quad R \\
 AO \quad OC \quad 3 \text{ cm} \\
 AC \quad 6 \text{ cm}
 \end{array}$$

हम जानते हैं
समकोण में

Abtitude (A')	लम्ब कर्ण	आधार
A'	$\frac{AB}{AC}$	BC
2	$\frac{AB}{BC}$	6
$AB \quad BC$	12 cm	
समकोण का क्षे.		
$\frac{1}{2}$	Base height	
$\frac{1}{2}$	$BC \quad AB$	
$\frac{1}{2}$	12	6 cm^2



$$\begin{array}{r}
 \tan \frac{AB}{BC} = \frac{50\sqrt{3}}{50} \\
 \tan \frac{1}{\sqrt{3}} = \tan 60^\circ \\
 60^\circ
 \end{array}$$

20. पहले वर्ष की दर $a\% = 10\%$ $\frac{1}{10}$

दूसरे वर्ष की दर $b\% = 12\%$ $\frac{3}{25}$

P (मूलधन) A (मिश्रधन)

$$\begin{array}{r}
 \frac{10}{25} \quad \frac{11}{28} \\
 \frac{25}{250} \quad \frac{11}{28}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 250 \text{ यूनिट} \quad 10000 \\
 1 \text{ यूनिट} \quad \frac{10000}{250}
 \end{array}$$

40 रु

11 28 यूनिट 11 28 40

11 1120

11200

$$\begin{array}{r} 1120 \\ \hline 12,320 \end{array}$$

21. $\tan 80^\circ \tan 10^\circ \sin^2 70^\circ \sin^2 90^\circ$

जब $A = B = 90^\circ$

$\tan A$	$\tan B$	1
$\sin^2 A$	$\sin^2 B$	1
$\tan 80^\circ \tan 10^\circ$	1	
$\sin^2 70^\circ$	$\sin^2 20^\circ$	1
1	1	2

DI-(22-25)

22. देशों की कुल उपज 200 160 120 132 120 80

	812	
औसत	$\frac{812}{7}$	$\frac{406}{3}$
	135	$\frac{1}{3}$

23. भारत की प्रति एकड़ उपज 200

PAK की प्रति एकड़ उपज 600



$$\begin{array}{r} 40 \\ \hline 160 \end{array} \quad 100 \quad 25\%$$

24. सभी देशों की कुल उपज 812

श्रीलंका की उपज 132

$$\begin{array}{r} 132 \\ \hline 812 \end{array} \quad 100 \quad 16 \quad 25\%$$

25. उपज आरोही क्रम में (In ascending order)

